

-प्रेस नोट-
जनपद-मीरजापुर

दिनांक-19-10-2021

वाराणसी जॉन की 69वीं अन्तर्जनपदीय वालीबॉल क्लस्टर(महिला/पुरुष) ,बास्केटबॉल, हैण्डबॉल, टेबल टेनिस एवं योगा प्रतियोगिता वर्ष-2021 का मुख्य अतिथि पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर द्वारा किया गया समापन —

दिनांक 19.10.2021 को मुख्य अतिथि पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर द्वारा पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के साथ वाराणसी जॉन की 69वीं अन्तर्जनपदीय वालीबॉल क्लस्टर(महिला/पुरुष),बास्केटबॉल, हैण्डबॉल, टेबल-टेनिस एवं योगा प्रतियोगिता वर्ष-2021 का समापन किया गया। जिसका शुभारम्भ दिनांक 17.10.2021 को पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा किया गया था। उक्त 03 दिवसीय प्रतियोगिता में जॉन वाराणसी के कुल 08 जनपद आजमगढ़ , मऊ, बलिया, चन्दौली, जौनपुर, मीरजापुर, भदोही, सोनभद्र की टीमों ने प्रतिभाग किया गया था जबकि जनपद गाजीपुर व वाराणसी की टीमों अपरिहार्य कारणों से शामिल नहीं हो सकी थी। प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर को पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा बैज व कैप लगाकर तथा पुलिस अधीक्षक मीरजापुर को अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा बैज लगाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर द्वारा पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउण्ड में खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका परिचय प्राप्त किया गया तथा खेल को खेल की भावना से खेलने और बेहतर प्रदर्शन करते हुए सफल होने की शुभकामना दी गयी। जनपद के पुलिस अधिकारी एवं निर्णायकगण श्री बलराज सिंह , श्री विनय प्रकाश द्विवेदी, श्री दिनेश यादव व श्री झब्बू लाल यादव का उक्त प्रतियोगिता को सम्पन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा।

वाराणसी जॉन की 69वीं अन्तर्जनपदीय वालीबॉल क्लस्टर(महिला/पुरुष) ,बास्केटबॉल, हैण्डबॉल, टेबल टेनिस एवं योगा प्रतियोगिता वर्ष-2021 में विजेता जनपद निम्नांकित है—

1. वालीबॉल (पुरुष वर्ग) — मीरजापुर।
2. वालीबॉल (महिला वर्ग) — भदोही।
3. बास्केटबॉल (पुरुष वर्ग) — मीरजापुर।
4. बास्केटबॉल (महिला वर्ग) — मीरजापुर।
5. हैण्डबॉल — मीरजापुर।
6. टेबल टेनिस (पुरुष वर्ग) — चन्दौली।
7. टेबल टेनिस (महिला वर्ग) — मीरजापुर।
8. योगा — आजमगढ़।

उक्त कार्यक्रम के समापन के क्रम में मुख्य अतिथि पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर द्वारा पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के साथ पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में प्रतियोगिता में विजेता रही वाराणसी जोन की टीमों को पुरस्कार/शील्ड देकर सम्मानित किया गया तथा खिलाड़ियों को सम्बोधित कर शुभकामना एवं बधाई संदेश दिया गया तथा भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित किया गया ।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर , क्षेत्राधिकारी नगर प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक , सुबेदार सहित खेल में प्रतिभाग करने वाली टीमों के सदस्यगण तथा पुलिस बल के कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।



